

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2023—ज्येष्ठ 19, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 01-02-2023

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	बस्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	दंतेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	बिलासपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	सक्ती	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
26.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी -भरतपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
29.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
30.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— प्रायः सभी जिलों में रबी व ग्रीष्मकालीन फसल की बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **सिंचाई.**— बेमेतरा, सरगुजा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **कटाई.**— जिला बेमेतरा एवं राजनांदगांव में तुअर एवं तिखड़ा फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
5. **फसल स्थिति.**— जिला महासमुन्द, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सक्ती, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला रायपुर एवं गरियाबंद में फसल की हालत सुधरी है. जिला धमतरी में धान, कुल्थी, लाख, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों व अलसी एवं अन्य फसल की हालत सुधरी है. जिला कोण्डागांव में धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, गेहूँ, मक्का, चना, उड़द, कुल्थी, मसूर, मूंग, मटर, लाख व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है. जिला मुंगेली में लाख, तिखड़ा, तुअर व चना फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में अरहर, गेहूँ, अलसी, फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख-तिखड़ा, मसूर, मटर, गन्ना, तिल, गेहूँ व अन्य फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में धान, तुअर व गेहूँ फसल की हालत सामान्य है.
6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **खेतीहर श्रमिक.**— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 01-02-2023

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ग्रीष्म कालीन बोनी का कार्य प्रगति पर है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..				
4. गोबरानवापारा	..				
5. तिल्दा	..				
6. खरोरा	..				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. पलारी	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लवन	..				
4. भाटापारा	..				
5. सिमगा	..				
6. बिलाईगढ़	..				
7. कसडोल	..				
जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	..	2. रबी फसल हेतु जुताई व बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..				
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
जिला-महासमुन्द्र	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द्र	..	2. रबी फसल हेतु जुताई व बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..				
4. सरायपाली	..				
5. बसना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्म कालीन धान की रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..		4. (1) धान, कुल्थी, लाख, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों व अलसी फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
4. नगरी	..				
5. भखारा	..				
6. कुकरेल	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..		(2) ..		
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है कृषि विभाग की सलाह से उपचार जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. तुअर फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेरला	..		(2) ..		
4. बेमेतरा	..				
5. नवागढ़	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	..		(2) ..		
4. डौण्डी	..				
5. डौण्डीलोहारा	..				
6. अर्जुन्दा	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. ग्रीष्म कालीन धान की रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	..		(2) ..		
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अं. चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
10. गण्डई	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. गन्ना फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोडला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..	खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़ों का प्रकोप है.	(2) ..		
4. पंडरिया	..				
5. रेंगाखारकला	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर					
1. जगदलपुर	..	2. रबी फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	..				
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	4.2	2. रबी फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. माकड़ी	..		4. (1) धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	..				
5. बड़ेराजपुर	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) धान, गेहूँ, मक्का, चना, उड़द, कुल्थी, मसूर, मूंग, मटर, लाख व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
जिला-कांकेर-उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा-दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	..				
5. बड़ेबचेली	..				
6. बारसूर	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..		4. (1) धान व मक्का फसल की हालत सामान्य हैं	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. गादीरास	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कुटूरु	..				
5. भोपालपटनम्	..				
6. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कोटा	..				
5. तखतपुर	..				
6. सीपत	..				
7. बोदरी	..				
8. बेलगहना	..				
9. सकरी	..				
10. रतनपुर	..				
जिला-गौरेला	मिलीमीटर				
पेण्ड्रा-मरवाही					
1. पेण्ड्रा रोड	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	..				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) लाख-तिवड़ा, तुअर व चना फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	..				
जिला-जांजगीर-चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. रबी फसल की बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..				
5. पामगढ़	..				
6. चाम्पा	..				
7. शिवरीनारायण	..				
8. बम्हनीडीह	..				
9. सारागांव	..				
जिला-सक्ती	मिलीमीटर				
1. सक्ती	..	2. ग्रीष्म कालीन धान की बोनी प्रगति पर है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. जैजैपुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मालखरौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डभरा	..				
5. नया बाराद्वार	..				
6. अडुभार	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. दर्दी	..				
5. पाली	..				
6. हरदीबाजार	..				
7. पोड़ीउपरोड़ा	..				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर व	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लुण्डा	..		अन्य फसल की हालत सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. लखनपुर	..		है.		
5. उदयपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. सीतापुर	..				
7. बतौली	..				
8. मैनपाट	..				
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	..		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	..		मूंगफली फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. प्रेमनगर	..		सामान्य है.		
5. ओड़गी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. लटोरी	..				
7. प्रतापपुर	..				
8. बिहारपुर	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाड्फनगर	..		अरहर फसल की हालत सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	..		है.		
5. शंकरगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		फसल की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. खड़गावां	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. चिरमिरी	..				
6. भरतपुर	..				
7. केलहारी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) लाख-तिवड़ा, मसूर, मटर व अन्य फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हैं.		
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				
10. सरिया	..				
11. छाल	..				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) धान, तुअर, गेहूँ फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगॉंव	..				
9. सन्ना	..				

पी. आर. प्रधान,
उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.